

इस ब्रांड की नकली बीड़ी बेच रहा था आरोपी, शिकायत पर किया गिरफ्तार

पुलिस ने एक आरोपी को नकली ३० नंबर बीड़ी बेचते पकड़ा। यह कार्रवाई कंपनी के लिखित आवेदन पर की। आरोपी से २३ पूड़े बड़े, १५ छोटे पूड़े व ७५ बंडल बड़े बीड़ी के जब्त किए गए हैं।

January, 09 • 12:58 AM



पुलिस ने एक आरोपी को नकली ३० नंबर बीड़ी बेचते पकड़ा। यह कार्रवाई कंपनी के लिखित आवेदन पर की। आरोपी से २३ पूड़े बड़े, १५ छोटे पूड़े व ७५ बंडल बड़े बीड़ी के जब्त किए गए हैं।

उज्जैन. पुलिस ने एक आरोपी को नकली ३० नंबर बीड़ी बेचते पकड़ा। यह कार्रवाई कंपनी के लिखित आवेदन पर की। आरोपी से २३ पूड़े बड़े, १५ छोटे पूड़े व ७५ बंडल बड़े बीड़ी के जब्त किए गए हैं।

भाटपचलाना पुलिस के प्रधान आरक्षक अरविंद गनावा ने बताया कि भाटपचलाना निवासी दिलीप (५४) पिता शांतिलाल जैन की बस स्टैंड पर दिलीप किराना स्टोर्स के नाम से दुकान है। यहां पर कंपनी को नकली ३० नंबर बीड़ी बेचने की शिकायत मिली थी। इस पर कंपनी के हरगोविंद (६५) पिता लक्ष्मणसिंह राठौर निवासी दिबकई पोस्ट रामपुर गरोठ जिला झांसी यूपी की शिकायत पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई दोपहर ३.३० बजे की गई। मामले में पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल जांच जारी है।

महिला से की मारपीट

झार्डा. घर के ऊपर से तार निकालने की बात को लेकर आरोपी ने महिला को गालियां देकर मारपीट की और जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि पाताखेड़ी में फरियादी के घर के सामने से आरोपी विक्रम पिता पूरसिंह निवासी पाताखेड़ी तार निकल रहा था। महिला ने मना तो किया आरोपी से उसके साथ मारपीट की और जातिसूचक शब्द कहे। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है।

चारपहिया चालक ने मारी टक्कर

खाचरौद. एक चारपहिया चालक ने वाहन लापरवाहीपूर्व चलाते हुए एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर घायल हो गया।

पुलिस ने बताया कि मोईनुद्दीन (३९) पिता अकीलुद्दीन शेख निवासी भोपा कॉलोनी को चारपहिया क्रमांक एमपी ०९ बीसी ५९४२ के चालक ने वाहन लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए टक्कर मार दी। इससे उसे चोटे आईं। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है।

Source: <https://www.patrika.com/ujjain-news/accused-was-selling-fake-bidi-of-this-brand-arrested-on-complaint-5617547/>